

भारतीय मानक ब्यूरो / Bureau of Indian standards

केंद्रीय प्रयोगशाला / Central Laboratory

(रासायनिक अनुभाग / Chemical section)

Our Ref: C/TF/Chemical/10350

Date: 29/11/2024

Subject: Upgradation of Testing Facility for Chemical requirements.

विषय: रासायनिक आवश्यकताओं के लिए परीक्षण सुविधा का उन्नयन।

This is for information to all Regional/Branch/Laboratories and Departments of BIS that Central Laboratory (Chemical Section) has upgraded testing facilities as per detail given below:

बीआईएस की सभी क्षेत्रीय/शाखा/प्रयोगशालाओं और विभागों को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय प्रयोगशाला (रासायनिक अनुभाग) ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परीक्षण सुविधाओं को उन्नत किया है:

IS No.	:	10350:2020
Product	:	POWDER HAIR DYE— SPECIFICATION
Test (s) with Clause No. for which facility has been created	:	Table 1 Requirements for Powder Hair Dye (Cl 4.5) S.no. ii) Active Matter as PPD Table 2 Requirement for Hair Dye Ready for Use (Cl 4.6) S.no. i) Calculated active matter (as PPD) in the solution after recommended dilution with water/diluent, percent by mass, Max
Type/Size/Grade/Variety for which test facility has been created	:	Type 1
Test Section	:	Chemical section
Major equipment procured for creation of test facility	:	NA (Verification of test method was done on HPLC as per Annex D of IS 10350:2020)
Status of facility created	:	Partial to Complete for Type 1 (Facility is Partial for type 2 and 3)
Test (s) with Clause No. for which facility yet to be created for complete testing	:	<u>For Type 2:</u> Table 1 Requirements for Powder HairDye (Cl 4.5) S.no. ii) Active Matter as PPD Table 2 Requirement for Hair Dye Ready for Use (Cl 4.6) Table 2 Requirement for Hair Dye Ready for Use (Cl 4.6) S.no. i) Calculated active matter (as PPD) in the solution after recommended dilution with water/diluent, percent by mass, Max <u>For Type 3:</u> Table 1 Requirements for Powder Hair Dye(Clause 4.5) S.no. ii) Active Matter as PPD and S.no. iii) Dye ingredients Table 2 Requirement for Hair Dye Ready for Use (Clause 4.6)

		S.no. i) Calculated active matter (as PPD) in the solution after recommended dilution with water/diluent, percent by mass, Max
Sample size	:	50 g
Testing capacity/month	:	10 samples/month
Remarks	:	<p>i) Recommendation of manufacturer regarding how much amount of water or diluent should be mixed with 1 part of dye as per cl 4.6.1 is required for calculation of active matter (as PPD) in the solution after recommended dilution with water/diluent, percent by mass, Max</p> <p>ii) Recommendation of manufacturer is required whether to use water as diluent or diluent supplied by the manufacturer</p>

In view of the above, all Regional/Branch/Laboratories are requested to send the samples to Central Laboratory for testing according to the above Testing Facilities.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी क्षेत्रीय/शाखा/प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परीक्षण सुविधाओं के अनुसार परीक्षण के लिए नमूने केंद्रीय प्रयोगशाला को भेजें।

विशाल कुमार
29/11/2024

Simesh Kumar

Sc. 'B' / Asst. Director

OIC (C) विशाल कुमार
29/11/2024

Sc. G & Head (CL)

29/11/2024